



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन 1935 (श0)
(सं0 पटना 785) पटना, शुक्रवार, 4 अक्टूबर 2013

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

30 सितम्बर 2013

सं0 नि० प्रा०/ नि० 1-03/ 2011 खंड-II-**1072**—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न **परिशिष्ट-1** में अंकित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-2** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट-1 में अंकित सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 12.11.2013 (मंगलवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-961 दिनांक 30.08.2013 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.07.2013

निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 21.09.2013 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा किया जा चुका है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- (ii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iii) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न मानक **प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-3)** में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 09.10.2013 (बुधवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को संलग्न **प्रपत्र-2** में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा निर्वाचन की तिथि को संलग्न **प्रपत्र-3** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
फूल सिंह,
 मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

समितियों की विवरणी जिनके निर्वाचन देय हैं :-

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड	CEDN	प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम
1	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	OT18ES160470	खुदानगर फल-सब्जी उत्पादक सं.सं.लि.
2	पूर्वी चम्पारण	चिरैया	OT18ES070471	चिरैया प्राथमिक बुनकर सं.सं.लि.
3	पूर्वी चम्पारण	चिरैया	OT18ES070472	बटौआ प्राथमिक बुनकर सं.सं.लि.
4	पूर्वी चम्पारण	चिरैया	OT18ES070473	मंगुराहां प्राथमिक बुनकर सं.सं.लि.
5	पूर्वी चम्पारण	घोड़ासहन	OT18ES090474	गुरमिया घोड़ासहन प्राथमिक बुनकर सं.सं.लि.
6	पूर्वी चम्पारण	घोड़ासहन	OT18ES090475	जनता जगीराहा प्राथमिक बुनकर सं.सं.लि.
7	पूर्वी चम्पारण	मधुबन	OT18ES140476	गुलबारा मधुबन ग्रामोदय सं.सं.लि.
8	पूर्वी चम्पारण	चकिया	OT18ES050477	मधुबन वेदीवन पैक्स
9	पटना	पटना सदर	OT18PT200491	बैंक ऑफ इण्डिया ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि., पटना
10	पटना	पटना सदर	OT18PT200492	जेनिथ सहकारी गृह निर्माण सं.लि., पटना
11	पटना	पटना सदर	OT18PT200493	सुख संसार सहकारी गृह निर्माण सं.लि., पटना
12	पटना	पटना सदर	OT18PT200494	मिथिलांचल सहकारी गृह निर्माण सं.लि., पटना
13	पटना	पटना सदर	OT18PT200495	नव त्रिमुर्ति सहकारी गृह निर्माण सं.लि., पटना पूर्वी लोहानीपुर, पटना-30
14	पटना	पटना सदर	OT18PT200496	अपना घराना सहकारी गृह निर्माण सं.लि., बिरला मंदिर रोड, पटना - 04
15	पटना	पटना सदर	OT18PT200497	नवनीत सहकारी गृह निर्माण सं.लि., नवनीत हाउसिंग कॉलनी, हनुमाननगर, पटना-20
16	पटना	पटना सदर	OT18PT200498	एन. आई. टी. कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, पटना
17	पटना	पटना सदर	OT18PT200499	डी. डी. सहकारी गृह निर्माण सं.लि., पटना
18	पटना	पटना सदर	OT18PT200500	जन जागरण सहकारी गृह निर्माण सं.लि., ए-63, पी.सी.कालोनी, कंकड़बाग, पटना
19	पटना	पटना सदर	OT18PT200501	शान सहकारी गृह निर्माण सं.लि., सब्जीबाग, पटना

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड	CEDN	प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम
20	पटना	पटना सदर	OT18PT200502	ग्रैंड सहकारी गृह निर्माण स.लि., पटना
21	पटना	पटना सदर	OT18PT200503	सुमन सहकारी गृह निर्माण स.लि., मीठापुर, पटना
22	पटना	पटना सदर	OT18PT200504	पार्वती महिला विकास सहयोग समिति लि., कंकड़बाग, पटना
23	पटना	पटना सदर	OT18PT200505	श्री कण्ठ नगर सहकारी गृह निर्माण स.लि., दरियापुरगोला, पटना
24	पटना	पटना सदर	OT18PT200506	आनन्द ग्राम चिड़ैयाटार सहकारी गृह निर्माण स.लि., चिड़ैयाटार, वार्ड नं.-33, पटना
25	पटना	पटना सदर	OT18PT200507	अरुणोदय सहकारी उपभोक्ता भंडार लि., वार्ड नं.-16
26	पटना	पटना सदर	OT18PT200508	न्यू यारपुर सहकारी उपभोक्ता भंडार लि., मिठापुर, वार्ड नं.-16, पटना
27	पटना	पटना सदर	OT18PT200509	करविगहिया सहकारी उपभोक्ता भंडार लि., वार्ड नं.-29
28	पटना	पटना सदर	OT18PT200510	एल.आई.सी.को.ग्रिप्ट एण्ड क्रेडिट सो.लि., जीवन प्रकाश फ्रेजर रोड, पटना
29	पटना	मसौढ़ी	OT18PT150511	ब्रम्हर्षि नगर सहकारी गृह निर्माण समिति लि., मसौढ़ी
30	पटना	पटना सदर	OT18PT200512	कमजोर पिछड़ा वर्ग सहकारी उपभोक्ता भंडार लि.
31	पटना	पटना सदर	OT18PT200513	विकास सहकारी उपभोक्ता भंडार लि.
32	पटना	पटना सदर	OT18PT200514	दी पायोनियर को. हाउसिंग सो.लि., द्वारिकापुरी, हनुमाननगर, कंकड़बाग, पटना
33	पटना	पटना सदर	OT18PT200515	शाहिन हाउसिंग सोसाइटी लि., राजापुर मैनपुरा, पटना
34	पटना	पटना सदर	OT18PT200516	उदयन सहकारी गृह निर्माण स.लि., कंकड़बाग, पटना
35	पटना	पटना सदर	OT18PT200517	जनता नगर सहकारी गृह निर्माण स.लि., बी-30, कंकड़बाग, पटना-20
36	पटना	पटना सदर	OT18PT200518	अजन्ता निकेतन सहकारी गृह निर्माण स.लि.
37	पटना	पटना सदर	OT18PT200519	आशियाना को. हाउसिंग सो.लि.

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड	CEDN	प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम
38	पटना	पटना सदर	OT18PT200520	शिवा सहकारी गृह निर्माण स.लि.
39	पटना	पटना सदर	OT18PT200521	मैत्री सहकारी गृह निर्माण स.लि.
40	पटना	पटना सदर	OT18PT200522	महामना मदन मोहन मालवीय सहकारी गृह निर्माण स.लि., पुरन्दरपुर, पटना
41	पटना	पटना सदर	OT18PT200523	वेद नगर सहकारी गृह निर्माण स.लि.
42	पटना	पटना सदर	OT18PT200524	शान्तिकुंज सहकारी गृह निर्माण स.लि., संगम मार्केट फुलवारीशरीफ, पटना
43	पटना	पटना सदर	OT18PT200525	आशीष सहकारी गृह निर्माण स.लि., आनन्द नगर, गंगा ब्रीज बिस्कोमान कॉलनी, पटना-7
44	पटना	पटना सदर	OT18PT200526	मौर्य बिहार सहकारी गृह निर्माण स.लि., खाजपुरा, पटना-14
45	पटना	पटना सदर	OT18PT200527	न्यू आईडियल सहकारी गृह निर्माण स.लि., पटना
46	पटना	पटना सदर	OT18PT200528	आलोक सहकारी गृह निर्माण स.लि., न्यू ए.जी.कालोनी, सगुना मोड़, पटना
47	पटना	पटना सदर	OT18PT200529	दीपक सहकारी गृह निर्माण स.लि., कंकड़बाग, पटना-20
48	पटना	पटना सदर	OT18PT200530	प्रभात नगर सहकारी गृह निर्माण स.लि., विजयनगर, लोहियानगर, पटना-26
49	पटना	पटना सदर	OT18PT200531	बिहार वित्त सेवा सहकारी गृह निर्माण स.लि., उत्तरी शास्त्रीनगर, बेलीरोड, पटना-23
50	पटना	पटना सदर	OT18PT200532	शिव चंडिका सहकारी गृह निर्माण स.लि., कंकड़बाग, पटना-20
51	पटना	पटना सदर	OT18PT200533	टेलिग्राफ को.हा.क.सो.लि.
52	पटना	मसौढ़ी	OT18PT150534	पार्क भिउ नगर सहकारी गृह निर्माण स.लि., समनपुरा, पटना
53	पटना	पटना सदर	OT18PT200535	शुभ श्री मिलन सहकारी गृह निर्माण स.लि., पटना
54	पटना	पटना सदर	OT18PT200536	चांदमारी रोड सहकारी उपभोक्ता भंडार लि., चांदमारी रोड, वार्ड नं.-33, पटना
55	पटना	पटना सदर	OT18PT200537	सम्राट सहकारी उपभोक्ता भंडार लि., चांदमारी रोड, वार्ड नं.-33, पटना

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड	CEDN	प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम
56	पटना	पटना सदर	OT18PT200538	पटना पेरिस थ्रिपट सेविंग एण्ड क्रेडिट को-ऑपरेटिव सो.लि., कुर्जी, पटना
57	पटना	मनेर	OT18PT200539	महिनावां बाग बगीचा सहकारी उपभोक्ता भंडार लि., मनेर
58	पटना	दानापुर	OT18PT200540	रामजयपाल नगर सहकारी गृह निर्माण सं.लि., दानापुर
59	पटना	दानापुर	OT18PT200541	ललित बुद्धिजीवी सहकारी गृह निर्माण सं.लि., दानापुर
60	पटना	दानापुर	OT18PT200542	जनता बिहार सहकारी गृह निर्माण सं.लि., दानापुर
61	पटना	पटना सदर	OT18PT200543	सी.डी.ए.हाउसिंग को.लि., पटना
62	पटना	पटना सदर	OT18PT200544	दी पिपुल्स हाउसिंग कन्स्ट्रक्सन सो.लि., कंकड़बाग, पटना
63	पटना	पटना सदर	OT18PT200545	पादय पुस्तक सहकारी गृह निर्माण सं.लि., पटना
64	पटना	पटना सदर	OT18PT200546	रामनगरी सहकारी गृह निर्माण सं.लि., पटना
65	पटना	पटना सदर	OT18PT200547	अलीनगर को. हाउसिंग कन्स्ट्रक्सन सो.लि., अनिसाबाद, पटना
66	पटना	पटना सदर	OT18PT200548	वेलफेयर हाउसिंग को.लि., रोड नं.-1, शिवपुरम, विजयनगर, रुकनपुरा, पटना
67	पटना	पटना सदर	OT18PT200549	नव मगध महिला सहकारी उपभोक्ता भं.लि., पटना
68	पटना	पटना सदर	OT18PT200550	कुर्जी होली फेमिली हॉस्पिटल इम्प.को.सो.लि., पटना
69	पटना	पटना सदर	OT18PT200551	बिहार स्टेट यूको बैंक ऑफिसर्स क्रेडिट एण्ड थ्रिपट को.सो.लि., पटना
70	सहरसा	सत्तर कटैया	OT18SS070174	सत्तर कटैया व्यापार मंडल सं.स.
71	औरंगाबाद	ओवरा	OT18AN100231	रतवार ग्रामोद्योग सं.स.लि., ओवरा, औरंगाबाद
72	भागलपुर	नाथनगर	OT18BH090319	हरिजन खाद्यी हैण्डलूम सिल्क प्रा.बुन.सं.स.लि., राघोपुर नाथनगर, भागलपुर
73	भागलपुर	नाथनगर	OT18BH090320	नाथनगर ग्रामोदय सं.स.लि., नाथनगर
74	भागलपुर	सबौर	OT18BH130321	सृजन महिला विकास सं.स.लि., सबौर

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड	CEDN	प्राथमिक सहकारी समितियों के नाम
75	भागलपुर	शाहकुण्ड	OT18BH150322	दरियापुर प्रा.बु.स.स.लि., दरियापुर
76	भागलपुर	गोराडिह	OT18BH030323	मिरनचक प्रा.बु.स.स.स.लि., मिरनचक, पो.—चकदरिया, भागलपुर
77	दरभंगा	बहादुरपुर	OT18DR020370	सेन्ट्रल बैंक कर्मचारी क्रेडिट एण्ड थ्रिपट स.स.लि., अमंडा, लहेरियासराय
78	सीतामढ़ी	बैरगनियां	OT18ST010310	सहकारी उपभोक्ता भंडार वार्ड नं:-3
79	सहरसा	कहरा	OT18SS020175	पेशनर समाज उपभोक्ता भंडार स.स.लि., बनगांव

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट-1 में उल्लिखित समितियों के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	09.10.2013 (बुधवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	29.10.2013 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	30.10.2013 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से लगातार
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	31.10.2013 (बृहस्पतिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	12.11.2013 (मंगलवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	12.11.2013 (मंगलवार) (अपराह्न 3-4 बजे से)

परिशिष्ट-3

.....समिति,

प्रपत्र-1**सूचना का प्रपत्र**

(प्रबंधकारिणी समिति के पदधारकों के निर्वाचन के लिए)

..... समिति, निबंधन संख्या, पता

.....के प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांकको किया जाना है।

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
उपविधि में वर्णित तथा प्राधिकार की अधिसूचना में सन्निहित निदेशों के अनुसार उल्लेख करें।	

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर

(स्थान का नाम)

सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता

(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

(स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक बजे पूर्वाह्न से बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(नामांकन पत्र दाखिल की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....

तकबजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर बजे पूर्वाह्न से बजे

(स्थान का नाम)

अपराह्न तक की जायेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न 3 बजे के पूर्व तकपर

(स्थान का नाम)

दाखिल की जा सकती है। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद विधिमान्य रूप से नामांकित सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का आवंटन भी किया जायेगा।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतदान केन्द्र (पूरा पता) में अवस्थित होगा।

(viii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से.....पर की जायेगी।

(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-2

विभिन्न सहकारी/ स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची

जिला : प्रखंड :

केन्द्रीय/ शीर्ष समिति का नाम,
जिससे समिति संबद्ध है : समिति का कार्य विवरण:

अंतिम प्रकाशित सूची के
अनुसार मतदाताओं की कुल
संख्या : संवीक्षा की तिथि: DD/ MM/ YYYY

समिति का नाम :

क्रमांक	अध्यक्ष पद	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति

क्रमांक	मंत्री/ उपाध्यक्ष/ सचिव	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति

* अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य

प्रबंधकारिणी समिति के विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची				अभ्युक्ति
अनु० जाति/ अनु० जनजाति कोटि	पिछड़ा वर्ग कोटि	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि	सामान्य कोटि	
कुल पदों की संख्या (अध्यक्ष/				

मंत्री/उपाध्यक्ष/ सचिव को छोड़कर)					
कुल (पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या)					
कुल (महिला अभ्यर्थियों की संख्या)					
कुल अभ्यर्थियों की संख्या					

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-3

विभिन्न सहकारी/ स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्विरोध/ सविरोध निर्वाचित सदस्यों की सूची

जिला : प्रखंड :

कुल मतदाताओं की मतदान करने वाले मतदाताओं की

संख्या : संख्या :

समिति का नाम : निर्वाचन की तिथि : DD/ MM/ YYYY

पद	नाम	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति
अध्यक्ष				
मंत्री/ उपाध्यक्ष/ सचिव				

अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/
* पिछड़ा वर्ग/ सामान्य

प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्यों का नाम				अभ्युक्ति
अनु० जाति/ अनु० जनजाति कोटि	पिछड़ा वर्ग कोटि	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि	सामान्य कोटि	

कुल पदों की संख्या (अध्यक्ष/मंत्री/उपाध्यक्ष/सचिव को छोड़कर)					
कुल (निर्वाचित पुरुष सदस्यों की संख्या)					
कुल (निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या)					
कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या					

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 785-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>